

प्रेस नोट दिनांक-13.10.2019

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में अपहृत/गुमशुदाओं की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में श्री चित्रसेन सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बरगढ़ के मार्गदर्शन में वरि030नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा गुमशुदा बालक (1) आर्यन तिवारी उम्र 13 वर्ष (2) नितिन उर्फ सोमेश्वर उम्र 15 वर्ष निवासी कस्बा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि कल दिनांक-12.10.2019 को संतोष तिवारी पुत्र सूरजपाल निवासी कस्बा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा थाने पर सूचना दी कि उसका बालक आर्यन तिवारी उम्र 13 वर्ष अपने साथी नितिन उर्फ सोमेश्वर उम्र 15 वर्ष के साथ घर से स्कूल के साथ निकले थे अब तक लौट कर नहीं आए काफी खोजबीन की गयी मिल नहीं रहे है। इस सूचना पर थाना बरगढ़ में अभियोग पंजीकृत कर प्रभारी निरीक्षक थाना बरगढ़ ने वरि030नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गयी। पुलिस टीम बालकों की बरामदगी हेतु लगातार प्रयासरत थी कि आज दिनांक-13.10.2019 को डभौरा रेलवे स्टेशन के पास से बालकों को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. वरि030नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह थाना बरगढ़
2. आरक्षी दुर्गेश
3. आरक्षी रविप्रकाश

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में आगामी विधानसभा उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुये अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राकेश कुमार यादव थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा वहद ग्राम सभापुर से अभियुक्त (1) गणेश उर्फ बड्डू पुत्र भगवानदीन (2) राजवंत पुत्र रीमभवन निवासीगण सभापुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 10-10 लीटर कच्ची शराब महुआ निर्मित के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

20 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री राकेश कुमार यादव थाना पहाड़ी
2. आरक्षी अखिलेश कुमार यादव

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के कुशल निर्देशन में शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलायमान रखने हेतु चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के क्रम में आज दिनांक-

13.10.2019 को श्री योगेश कुमार प्रभारी यातायात चित्रकूट तथा उनकी टीम द्वारा यू0पी0टी0 तिराहा सीतापुर में प्रेशर हॉर्न, बिना हेल्मेट 03/सवारी दो पहिया, ओवरलोड सवारी तीन पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान यातायात प्रभारी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए वाहनों का ई-चालान कर समन शुल्क वसूला गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में आगामी विधानसभा उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए श्री केशव प्रसाद दुबे प्रभारी एण्टी डकैती टीम अपनी टीम के साथ उ0प्र0 एवं म0प्र0 बार्डर पर कल्याणपुर में संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बार्डर पर आने जाने वाले वाहनों में आपत्तिजनक वस्तुओं की चेकिंग की गयी।

(5). आगामी विधान सभा उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री के0के0 मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर ने अपनी टीम तथा पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ ग्राम रानीपुर गिदुरहा, चमरौहा, सकरौहा, मऊ गुरदरी में फ्लैग मार्च कर ऐरिया डोमिनेशन की कार्यवाही की गयी। पैदल फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से बात चीत कर किसी भी समय किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो तुरन्त पुलिस को सूचना दे मानिकपुर पुलिस हर समय आपके लिए तैयार खड़ी है आप लोग चुनाव वाले दिन निर्भीक एवं निडर होकर स्वतंत्र रूप से अधिक से अधिक मतदान करें।